



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 चैत्र 1946 (श10)
(सं0 पटना 397) पटना, शुक्रवार, 19 अप्रील 2024

वायुयान संगठन निदेशालय
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना
15 मार्च 2024

सं0 सि०वि०नि०(योजना)—10—01 / 2024 / 212—भागलपुर हवाई अड्डा भागलपुर शहर के बीचों-बीच अवस्थित है। वर्तमान में एयरस्ट्रीप के आसपास बहुत सारे ऊँचे भवनों का निर्माण हो गया है जिसके कारण उड़ान गतिविधि बाधित हो गई है।

भागलपुर हवाई अड्डा के परिचालन हेतु विभिन्न ऑपरेटर को ट्रायल हेतु अनुमति दिया गया परन्तु शहर के बीचों-बीच हवाई अड्डा के आस-पास विभिन्न इमारत निर्मित होने के कारण ट्रायल उड़ान का परिचालन नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में अब इस हवाई अड्डे की उपयोगिता सीमित रह गई है।

उपर्युक्त के आलोक में भागलपुर में वर्तमान हवाई अड्डे को स्थानान्तरित करते हुए न्यूनतम 6000 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर नए हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
निशीथ वर्मा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 397-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>